

साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम 2023-24

CLASS - 10 SUBJECT- MATHS

माह	सप्ताह	पाठ का नाम	पाठ खण्ड	कालांश	अधिगम प्रतिफल
June-2023	पहला दूसरा तीसरा चौथा	वास्तविक 1. संख्याएँ	परिचय 1.2 यूकिलड विभाजन 1.3 अंकगणित का आधारभूत 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण 1.5. परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण 1.6 पुनरावृत्ति	0 1 0 4 0 3 0 2 0 2 0 2	पहले अध्ययन की गई संख्याओं के गुणों, संक्रियाओं (+,-,X,÷) के आधार पर यूकिलड विभाजन एल्गोरियम को समझता है साथ ही साथ अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को भी समझता है तथा इसका प्रयोग करके HCF ज्ञात करता है। यूकिलड विभाजन एल्गोरियम के आधार पर HCF ज्ञात करता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, LCM ज्ञात करता है। दी गई संख्या सांत/असांत आवर्ती है, तय करता है। LCM और HCF की अवधारणा का प्रयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है।
June-2023	चौथा पांचवा	2.बहुपद	2.1 परिचय 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ 2.3 किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरियम 2.5 पुनरावृत्ति	0 1 0 1 0 2 0 2	किसी बहुपद के शून्यक को बीजीय विधि से ज्ञात करता है। किसी बहुपद के शून्यक को ज्यामितीय विधि से हल करता है। किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करता है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरियम का प्रयोग करता है।
July	दूसरा तीसरा	3. दो चर वाले ऐखिक 3. समीकरण युग्म	3.1 परिचय 3.2 दो चरों में ऐखिक समीकरण युग्म 3.3 दो चरों में ऐखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल 3.4.1 प्रतिस्थापन विधि 3.4.2 विलोपन विधि 3.4.3 बज गुणन विधि	0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3	बिजीय विधियों का प्रयोग करके दो चरों वाले ऐखिक समीकरणों के युग्म को हल कर पाता है। दो चर वाले ऐखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कर पाता है। एक हल , अनेक हल एवं कोई हल नहीं की शर्तों को समझता है।
August	दूसरा तीसरा		3.5 दो चरों के ऐखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण 3.6 पुनरावृत्ति	0 2	
	कुल			2 0	
August	तीसरा चौथा पांचवा	4. द्विघात समीकरण	4.1 परिचय 4.2 द्विघात समीकरण 4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल 4.5 मूलों की प्रकृति 4.6 पुनरावृत्ति	0 3 0 3 0 4 0 2 0 2	द्विघात समीकरण को पहचानता है। विविधकर को ज्ञात करता है तथा मूलों की प्रकृति का निर्धारण करता है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि एवं द्विघाती सूत्र से मूलों को ज्ञात करता है। मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करता है।
September	पहला			1 4	
	कुल				
September	दूसरा तीसरा	5.समानांतर श्रेढ़ियाँ	5.1 परिचय 5.2 समानांतर श्रेढ़ियाँ	0 3 0 4	A.P की पहचान करता है।

	चौथा	5.3 A.P का n वाँ पद 5.4 A.P के प्रथम n पदों का योग 5.5 पुनरावृत्ति	04 02 04	दिए गए A.P का n वाँ पद ज्ञात करता है। दिए गए A.P के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करता है। दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों में A.P का प्रयोग करता है।	
	कुल		13		
September	चौथा	6. त्रिभुज पांचवा पहला दूसरा तीसरा	6.1 परिचय 6.2 समरूप आकृतियाँ 6.3 त्रिभुजों की समरूपता 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ 6.5 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 6.6 पाइथोगोरस प्रमेय 6.7 पुनरावृत्ति	01 04 05 04 07 02	सर्वांगसमता और समरूपता के अंतर को समझता है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को समझता है। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों को समझता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय तथा पाइथोगोरस प्रमेय को समझता है एवं इसका प्रयोग करता है।
October	कुल		23		
October	तीसरा	7.निर्देशांक ज्यामिति	7.1 परिचय 7.2 दूरी सूत्र 7.3 विभाजन सूत्र	04 03 03	किसी दिए गए दो बिन्दुओं के बीच की दूरी ज्ञात करता है। दिए गए बिन्दुओं के बीच स्थित बिंदु का निर्देशांक, दिए गए विभाज्य अनुपात हेतु ज्ञात करता है।
November	पहला		7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.5 पुनरावृत्ति	02	किसी दिए गए त्रिभुज के शीर्षों हेतु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करता है।
November	कुल		12		
November	पहला	8.त्रिकोणमिति का परिचय	8.1 परिचय 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात 8.3 कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात	04 03 03	एक दिए गए समकोण त्रिभुज, दिए गए कोण हेतु त्रिकोणमितीय अनुपातों का विर्धाग्रहण करता है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करता है एवं उनका प्रयोग करता है।
November	दूसरा		8.4 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.5 त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ	03 03	
November	तीसरा		8.6 पुनरावृत्ति	02	
November	चौथा		कुल	15	
December	चौथा	9.त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग	9.1 परिचय 9.2 ऊँचाइयाँ और दूरियाँ	07 02	दिए गए स्थिति (प्रश्न) हेतु आरेख खींचता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके वांछित ऊँचाई, दूरी ज्ञात करता है।
December	पहला		9.3 पुनरावृत्ति		दैनिक जीवन में ऊँचाई एवं दूरी के प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करता है।
December	दूसरा		कुल	9	
December	दूसरा	10.वृत्त	10.1 परिचय 10.2 वृत्त की स्पर्श रेखा 10.3 एक विन्दु से एक वृत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या	01 03 02	वृत की स्पर्श रेखा के बारे में समझता है तथा स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेयों को सिद्ध करता है। किसी वृत के बाहरी बिन्दु से स्पर्श रेखाओं के एक युग्म की तथा इसमें प्रयुक्त प्रक्रिया का औचित्य बताता है।
December	तीसरा		10.4 पुनरावृत्ति		
December	चौथा		कुल	6	
December	चौथा	11.रचनाएँ	11.1 परिचय 11.2 रेखाखंड का विभाजन 11.3 किसी वृत पर स्पर्श रेखाओं की रचना	03 03 02	एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। किसी वृत पर स्पर्श रेखाओं की रचना वृत के बाहर स्थित बिन्दु से करता है।
December	पांचवा		11.4 पुनरावृत्ति		
	कुल		8		

January	पहला	संबंधित क्षेत्रफल	12.1 परिचय	0 2	दिए गए वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल को ज्ञात करता है। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझते हुए दैनिक जीवन में उपयोग करता है।	
	दूसरा		12.2 वृत का परिमाप और क्षेत्रफल - एक समीक्षा	0 4		
	तीसरा		12.3 त्रिज्याखंड और वृतखंड के क्षेत्रफल	0 4		
			12.4 समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल	0 2		
			12.5 पुनरावृत्ति			
	कुल			1 2		
January	तीसरा	13.पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन	13.1 परिचय	0 3	आस-पास की वस्तुओं की कल्पना विभिन्न ठोस आकारों के संयोजन के रूप में करते हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करता है।, जैसे कि बेलन और शंकु, बेलन और अर्धवृत, विभिन्न घनों का संयोजन इत्यादि।	
	चौथा		13.2 ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल	0 3		
	पांचवा		13.3 ठोसों के संयोजन का आयतन	0 3		
January	पहला		13.4 एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण	0 3		
	दूसरा		13.5 'शंकु' का छिन्नक	0 2		
			13.6 पुनरावृत्ति			
	कुल			1 4		
January	दूसरा	14.सांख्यिकी	14.1 परिचय	0 3	दैनिक जीवन के संदर्भ में संबंधित आंकड़ों के लिए विभिन्न सम्मुच्चयों के माध्य, माध्यक और बहुलक पर परिकलित करता है। दिए गए आंकड़ों पर विभिन्न प्रकार के आलेखों को खींचता है।	
	तीसरा		14.2 वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य	0 2		
			14.3 वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक	0 2		
			14.4 वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यक	0 2		
			14.5 संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण	0 2		
			14.6 पुनरावृत्ति			
	कुल			1 1		
January	चौथा	प्रायिकता	15.1 परिचय	0 6	किसी घटना की प्रायिकता निर्धारित करता है। प्रायिकता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझता है।	
	पंचवा		15.2 प्रायिकता- एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण	0 2		
			15.3 पुनरावृत्ति			
	कुल			8		
	कुल			187	कुल कार्य दिवस - 187	